

SPACE INCUBATRICES TECHNOLOGIES LIMITED

Regd. Office: Pawan Puri, Muradnagar, Ghaziabad-201206 (U.P.)

CIN: L17100UP2016PLC084473

E-mail- spaceincubatrices@gmail.com, Web: www.spaceincubatrices.com, Phone: 01232-261288

Date: 08.09.2021

The Manager
Department of Corporate Relationship
BSE Limited
PhirozeJeejeebhoy Tower
Dalal Street, Mumbai - 400 001

Scrip Code: 541890
Scrip ID: SPACEINCUBA

Sub: Newspaper Advertisement of Notice of Annual General Meeting scheduled to be held on September 30, 2021


Pursuant to Regulation 47 and Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of Notice of Annual General Meeting and Remote E-voting information published in following Newspapers:

- A. Financial Express dated 08.09.2021 (English Daily)
- B. Jansatta dated 08.09.2021 (Hindi Daily)

This is for your information & record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Space Incubatrices Technologies Limited


(Megha Vashistha)
(Company Secretary & Compliance Officer)
Membership Number :A57544



Encl. as above:

Shakumbhari Pulp & Paper Mills Limited
 CIN: L2121UP1986PLC007671
 Regd. Off. 4.5 KM, Bhoga Road, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh- 251001
CORRIGENDUM
 With reference to "Notice of Annual General Meeting Book Closure and E-voting Information" published in this newspaper on 07-09-2021 in respect of the AGM Notice, it is to be noted that at the time of printing of the final version in newspaper, a typographical printing error has inadvertently happened wherein the Date in bottom of Notice should have been written as **07-09-2021** instead of 31.08.2021. This corrigendum should be read in continuation of and in conjunction with the said AGM Notice and all the other items shall remain unchanged.
 By Order of the Board
FOR Shakumbhari Pulp & Paper Mills Limited
 Sd/-
(Ashu Gupta)
 Date: 07.09.2021
 Place: Muzaffarnagar Company Secretary

CORPORATE MERCHANT BANKERS LIMITED
 Regd. Off: UG-24, Vishwadeep Tower, District Centre, Janak Puri New Delhi-110058
 Corp. Office: 8-238/BE, Plot No.32, Navanirman Nagar Jubilee Hills, Hyderabad, Telangana 500033
 CIN: L74899DL1994PLC01107, Email ID:cmbldeh@gmail.com
 Ph. No. 011-65638244 Website: www.cmbl.co.in
NOTICE
 Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting of Corporate Merchant Bankers Limited will be held on Thursday 30th September 2021, at 10:00 A.M. at UG-24, Vishwadeep Tower, District Centre, Janakpuri, New Delhi, to transact business, as set out in Notice convening the AGM. The Annual Report for the financial year 2020-21 including the notice of convening AGM, Attendance Slip, Proxy form etc has already been dispatched through permitted route on Wednesday 8th September 2021.
 In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing electronic voting (Remote e-voting) facility to the members to enable them to cast their votes electronically. Accordingly, the items of business given in the Notice of AGM may be transacted through electronic voting facilities provided by the Central Depository Services (India) Limited (CDSL).
 1. E-voting commences on 27th September 2021 at 9:00 A.M. and will end at 29th September 2021 at 5:00 P.M. and at the end of e-voting period, the facility shall forthwith be blocked. During this period shareholder of Company may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is casted by the shareholders, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
 2. Any person, who acquires shares of the Company and become members of the Company after dispatch of AGM notice and holding shares as on cut-off date i.e. Thursday 23rd September 2021 may obtain the login ID and password by sending request at helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 3. Members please note that, remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 pm on 29th September 2021.
 4. Members may note that (a) the facility for e-voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not casted their vote by remote e-voting shall be able to exercise their rights at the meeting through ballot paper; b) A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote at the AGM.
 5. A person, whose name is recorded in the register of Members or in the register of Beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.
 6. The Notice of 27th AGM is also available on http://www.evotingindia.com.
 7. In case of any queries, you may refer to Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Download sections of http://www.evoting.com or contact CDSL at their toll free no. 1800-200-5533 or Email ID: helpdesk.evoting@cdslindia.com.
Book closure:
 Notice is hereby further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Shares Transfer Books of the Company will remain closed from Friday 24th September 2021 to Thursday 30th September 2021 (both days inclusive), for the purpose of the 27th AGM of the Company.
 By order of the Board
For Corporate Merchant Bankers Limited
 Sd/-
Parne Venkateshwar Reddy
 Director
 Din : 0646233
 Date: 8th September 2021
 Place: New Delhi

PUBLIC NOTICE
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT, REGISTRAR OF COMPANIES, DELHI & HARYANA
 Advertisement for change of registered office of the LLP from one state to another
 In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Liability Partnership Act, 2008 and rule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009
DIGIKO SOLUTIONS LLP (LLPIN: AAT-0984) having its Registered Office at C/O RAHUL GARG S/O RADHEY SHYAM H NO 118 2ND FLOOR DEEPAI ENCLAVE, PITAMPURA OPP MATHER DA IRY, NEW DELHI-110034
Applicant
 Notice is hereby given to the general public that **DIGIKO SOLUTIONS LLP** proposes to make an application to Registrar of Companies, Delhi & Haryana under section 13(3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from the "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Maharashtra".
 Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver either on **MCA-21 Portal** on (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the his/her interest and grounds of oppositions to the Registrar of Companies, Delhi & Haryana at 4th Floor, IFCI Tower, 51, Nehru Place, New Delhi-110019 OR through e-mail at roc.delhi@mca.gov.in within Twenty One days from the date of publications of this notice with a copy to the petitioner LLP at its Registered Office at the address mentioned below :-
C/O RAHUL GARG S/O RADHEY SHYAM H NO 118 2ND FLOOR DEEPAI ENCLAVE, PITAMPURA OPP MATHER DA IRY, NEW DELHI-110034
 For & On Behalf of the Applicant
DIGIKO SOLUTIONS LLP
 Sd/-
ASHUTOSH KUMAR BHARDWAJ
 Designated Partner
 Date : 07.09.2021
 Place : New Delhi

SPACE INCUBATRICES TECHNOLOGIES LIMITED
 Regd. Off :PawanPuri, Muradnagar, Distt. Ghaziabad-201206 Uttar Pradesh (INDIA)
 CIN : L17100UP2016PLC084473
 Email: spaceincubatrict@gmail.com
 Website: www.spaceincubatrict.com; Phone: 01232-261288
Notice of AGM:
 NOTICE is hereby given that the 5th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of **SPACE INCUBATRICES TECHNOLOGIES LIMITED** will be held on **Thursday, September 30, 2021 at 12:30 P.M. at PawanPuri, Muradnagar, Ghaziabad-201206 (UP)**, to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice of AGM dated August 28th, 2021. The Notice of the AGM along with the Explanatory Statement thereto and the Annual Report for the year ended March 31, 2021 has been separately sent in electronic mode to all those Members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). Physical copies of the Notice of AGM have been sent to all other Members who have not registered their email addresses, at their registered addresses, by the permitted mode. The Annual Report and a copy of the Notice of AGM are also available on the website of the Company at www.spaceincubatrict.com and on the website of CDSL at https://www.evotingindia.com.
E-Voting:
 The Company has entered into an arrangement with Central Depository Services Limited ("CDSL") for facilitating remote e-voting services.
 In this regard, Members may note that:
 (i) Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and regulation 44 of SEBI (LODR) Reg. 2015, the business as set forth in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means. The company is pleased to provide remote E-voting facility to all its Shareholders.
 (ii) The cut-off date for the purpose of determining shareholders for voting through Remote E-voting and at the venue of AGM is Thursday, September 23, 2021 (Cut Off Date). Members holding shares either in physical or dematerialized form, as on the Cut Off Date may either cast their votes, electronically through electronic voting system of Central Depositories Services Limited (CDSL) i.e. https://www.evotingindia.com from a place other than the venue of AGM ("Remote E-voting") or at venue of the AGM through Ballot Paper;
 (iii) The Remote E-voting shall commence on September 27, 2021 at 10:00 AM (Monday) and end on September 29, 2021 at 5:00 PM (Wednesday). The Remote E-voting facility shall be disabled by CDSL after September 29, 2021 at 5:00 PM (Wednesday) and no voting shall be allowed beyond the said date and time and once the vote on the resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
 (iv) any person who has acquired shares and becomes members of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holds shares as on the Cut Off date i.e. September 23, 2021 (Thursday) may obtain their user ID and password for e-voting from the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or CDSL by connecting to the CDSL or RTA at the following contacts:
 Tel. No. :022-23058738 and 22-23058542-43, E-mail ID: helpdesk.evoting@cdslindia.com, beatal@beatalfinancial.com.
 (v) the facility of voting through Ballot paper shall be made available at the venue of AGM;
 (vi) a Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through Remote E-voting but shall not be allowed to cast his vote again in the AGM;
 (vii) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the Cut Off Date only shall be entitled to avail the facility of Remote E-voting or voting at venue of the AGM through Ballot Paper.
 Notice of AGM of the company can be downloaded from the link: https://www.spaceincubatrict.com/wp-content/uploads/2021/09/Notice_AGM_Space_2021.pdf
 In case of any queries, members may refer the "Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual formers" available under the "Downloads" section of www.evotingindia.com. For any further grievance related to the remote e-voting, members may call on the toll free no. 1800225533 or contact Mr. AnandTirodkar, Mr. Ankit Bandivadekar, CDSL, Trade World, Phirozejeebhoy Towers, 17th Floor, Dalal Street, Mumbai 400001, at the designated e-mail ids: helpdesk.evoting@cdslindia.com or telephone no. Tel: (022) 23058615, (022-23058634) Fax: (022) 23002043.
 The AGM will be held at the said venue by strictly adhering to the Social Distancing Norms and other Safety Protocols including Face Masks, Hand Sanitization etc. as per the latest guidelines / advisories / SOPs issued by the Ministry of Health & Family Welfare, Govt of India and the State Governments amid COVID 19 pandemic
 For **SPACE INCUBATRICES TECHNOLOGIES LIMITED**
 Sd/-
 (Megha Vashistha)
 Date : September 06, 2021
 Company Secretary & Compliance Officer
 Place : Muradnagar
 M. No.: A57544

Form No. INC-26
 (Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)
Before the Central Government, Regional Director, Northern Region, New Delhi
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AN
 In the matter of **MONEYART SMALL FINANCE PRIVATE LIMITED**
 (CIN: U67190DL2019PTC0351545) having its Registered Office at **F-105/106, PLOT NO.5, 1ST FLOOR CSIOCF, RK PLAZA SECTOR 21, PH 3 ROHINI NEW DELHI-110086**
Applicant Company / Petitioner
 NOTICE is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under Section 13(4) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 06th September 2021 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Maharashtra".
 Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the **MCA-21 portal (www.mca.gov.in)** by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd floor, Parvayaran Bhawan, CGO Complex New Delhi-110003 within fourteen days (14) from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its Registered Office at the address mentioned below:-
F-105/106, PLOT NO.5, FLOOR 1ST CSIOCF, RK PLAZA SECTOR 21, PH 3 ROHINI NEW DELHI-110086
 For & on behalf of **MONEYART SMALL FINANCE PRIVATE LIMITED**
 Sd/-
ASHUTOSH KUMAR BHARDWAJ
 (DIRECTOR)
 DIN : 03168856
 Date : 07.09.2021 : Place : New Delhi

AJANTA SOYA LIMITED
 CIN L15494RJ1992PLC016617
 Regd. Office: SP- 916, Phase-III, Industrial Area, Distt. Alwar, Bhiwadi 301 019, Rajasthan
 Ph. No. 911-6176727, 911-6128880
 Corp. Office: 12th Floor, Bigjo's Tower, A-8, Netaji Subhash Place, Wazirpur District Centre, Delhi-110 034
 Ph. No. 91-11-42515151, Fax: 91-11-42515150
 Website: www.ajanta-soya.com, E-mail: cs@ajanta-soya.com
NOTICE OF THE 30th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION
 Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday 30th September, 2021 at 2:00 P.M. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with Circulars dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020 and 13th January 2021 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circulars dated 12th May 2020 and 15th January 2021 respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), without the physical presence of Members at a common venue. Members will be able to attend the AGM through VCO/AVM facility only. Members participating through the VCO/AVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
 In terms of the Relevant Circulars, the requirement of sending physical copy of the notice of the 30th AGM and Annual Report to the members has been dispensed with and accordingly, the Notice of the 30th AGM and the Annual Report 2020-21 has been sent by e-mail on Tuesday, 7th September 2021 to those members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant/s.
 The Notice of the 30th AGM and the Annual Report 2020-21 can be downloaded from the Company's website at www.ajanta-soya.com and the website of the stock exchange where the shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com as well as on the website of National Securities Depository Limited i.e. www.evotingnsdl.com. Notice of the AGM is also available on the website of NSDL www.evotingnsdl.com.
Instruction of Remote E-voting and E-Voting during AGM: Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Rules") and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "Listing Regulations"), the Company is pleased to provide its shareholders facility of remote E-voting and E-voting during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed National Securities Depository Limited ("NSDL") for facilitating voting through electronic means.
 A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, participating in the 30th AGM through VCO/AVM facility and e-voting during the 30th AGM.
 The Remote e-voting will commence at 9:00 a.m. (IST) on Monday, 27th September, 2021 and will end at 5:00 p.m. (IST) on Wednesday, 29th September, 2021. During this period, Members may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Those Members, who shall be present in the AGM through VCO/AVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.
 The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend and participate in the 30th AGM through VCO/AVM means, but shall not be entitled to cast their e-vote again.
 Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The Cut-off date for the purpose of e-voting has been fixed as Thursday, 23rd September, 2021. Voting rights shall be reckoned on the paid up value of the shares registered in the name of the members of the Company as on the Cut-off date.
 Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after sending the Notice of the AGM by email and holding shares as of the Cut-off date i.e. Thursday, 23rd September, 2021, may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if any person is already registered with NSDL for remote e-voting, he can use his existing User ID and Password for casting his vote. If a person has forgotten his Password, he can reset his Password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evotingnsdl.com or contact NSDL on Toll free no.: 1800-1020-990 and 1800-22-44-30.
 In case of any queries / grievances connected with electronic voting, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and remote e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evotingnsdl.com or call on toll free no.: 1800-1020-990 and 1800-22-44-30 or send a request at evoting@nsdl.co.in or pallavi@nsdl.co.in or contact to Ms. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Limited, Trade World - A Wing, Kamala Mills Compound, Lower Pare, Mumbai - 400013.
 The Members, who are holding shares in physical form or who have not registered their e-mail ID with the Company/RTA can cast their vote through remote e-voting or through e-voting during the AGM by registering their e-mail ID.
 The process and manner of remote e-voting and e-voting during the AGM for members holding shares in dematerialised and physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM.
 Mr. Debabrata Deb Nath (Membership No. FCS 7775), Company Secretary in Whole-time Practice of M/s R & D Company Secretaries, Delhi, has been appointed as the Scrutinizer for conducting e-voting process in a fair and transparent manner.
Book Closure: Pursuant to the provision of section 91 of the Companies Act 2013 and rules made there under, and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Register of Members and Share Transfer book of the Company will remain closed from Thursday, 23rd September 2021 to Thursday, 30th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 30th Annual General Meeting to be held on Thursday, 30th September, 2021 at 2:00 P.M. (IST).
 For Ajanta Soya Limited
 Sd/-
 Sushli Goyal
 (Managing Director)
 (DIN: 00125275)
 Place: New Delhi
 Date: 07-09-2021

ADITYA BIRLA CAPITAL
PROTECTING INVESTING FINANCE ADVISING
Aditya Birla Housing Finance Ltd.
 Registered Office : Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat - 362266
 Branch Office: D-17 Sec-3 Noida UP
Demand Notice under Section 13(2) of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) (The Act)
 September 08, 2021

Sr No.	Name and Address(es) of Borrower(s) (A)	Description of Property (B)	Loan amount (Rs) (C)	Loan account No. (D)	Outstanding amount (Rs.) (E)	Date of Notice (F)	NPA Date (G)
1.	Surender Gautam, 50-B, LIG Flats Udhog Vihar, Block-E4, Sector-82, Noida, Maharashtra Nagar, Uttar Pradesh-201301 Also at: Monstor.com India Private Limited, Plot No. 5, E.F.G.H, Sector-126, Tapasya Building, Expressway Noida, UP-201304 Also at: Flat No. 3409, Tower/Block, Cst/Garden Homes, Eco Village-1, Plot No. 8, Sector-1, Greater Noida, Uttar Pradesh-201303 Also at: B-164, Additional Township, NTPC Badapur, Jaitpur, Delhi-110044 2. Rekha Gautam, 50-B, LIG Flats Udhog Vihar, Block-E4, Sector-82, Maharashtra Nagar Noida, Uttar Pradesh-201301 Also at: Flat No. 3409, Tower/Block, Cst/Garden Homes, Eco Village-1, Plot No. 8, Sector-1, Greater Noida, Uttar Pradesh-201303	All that is part and parcel of Flat No. 3409, Tower/Block, Cst/Garden Homes, Eco Village-1, Plot No. 8, Sector-1, Greater Noida, Uttar Pradesh-201303	Rs. 33,24,532/-	LNDELHL-01180040504	Rs. 18,81,645/- (Rupees Eighteen Lakh Eighty One Thousand Six Hundred Forty Five Only) by way of outstanding principal, arrears (including accrued late charges) and interest till 13.07.2021	15.07.2021	30-06-2021

Whereas Aditya Birla Housing Finance Limited, having its above mentioned branch office (hereinafter referred as "ABHFL") had extended to the above named borrower(s) written in column A separate credit facilities written in Column C vide Loan account not mentioned in Column D against the name of each set of borrowers.
 The said credit facilities are secured inter alia by way of mortgage over the immovable property as described in column "B" (hereafter referred to as the "Secured Asset").
 That the above named borrower(s) have failed to maintain financial discipline in the loan account and as per the books of accounts maintained in the ordinary course of business by ABHFL there exists an outstanding amount indicated in column E as indicated against the name of each of the borrower(s).
 Due to persistent default in repayment of the loan amount on the part of the above named borrower(s) the loan account of the above named borrower(s) has been classified by ABHFL as non performing asset/s on indicated in the column G respectively within the norms stipulated by the Reserve Bank of India/National Housing Board. Consequently, notices under Sec 13(2) of the Sarfaesi Act, 2002 were also issued to each of the borrower(s) notice dated mentioned in column F, which have Undelivered / Delivered.
 In view of the above default ABHFL hereby calls upon the above named borrower(s) to discharge in full their liabilities towards ABHFL by making payment of the entire outstanding dues indicated in Column E as indicated above including up to date interest, costs, and charges within 60 days from the date of publication of this notice, failing which, ABHFL shall be entitled to take possession of the Secured Asset and shall also take other actions as is available to ABHFL in law.
 That please be informed that you, the above named borrower(s) are hereby restrained from alienating (including by way of transfer, sale, lease or otherwise) or creating third party interest or dealing with the secured Asset in any manner except with specific prior written permission from ABHFL. Be informed that any contravention thereof shall be punishable with imprisonment up to a period of one year or with fine or with both.
 That please note that this is a final notice under Section 13(2) of The Securitization And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. Needless to say, that ABHFL shall be within its right to exercise any or all of the rights referred to above against you the Addressee entirely at your risk, responsibility and costs.
 Place: New Delhi Date: 08/09/2021
 Signed by Authorized Officer, Aditya Birla Housing Finance Limited

BAGHPAT BRANCH : NEAR BHAGAT JI HALWAI, MEERUT ROAD, DISTT.-BAGHPAT 250609 (U.P.)
POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)
(As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)
 Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the **BANK OF BARODA**, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice calling upon the Borrower/Guarantors as given below to repay the amount mentioned below within 60 days from the receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantors and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13 of the act read with rule 8 of the security interest Enforcement rules, 2002 on the date mentioned below against their names. The Borrower/Guarantors in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property, and any dealings with the property will be subject to the charge of **BANK OF BARODA, BAGHPAT BRANCH, BAGHPAT** for the amount detailed below and interest together with expenses thereon. **The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-section 8 of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.**

S.No.	Name of the Borrowers/Guarantors	Description of Immovable Properties	Date of Demand Notice	Outstanding Amount
1.	Borrower: 1. Mr Jitendra Kumar S/o Suresh Pal R/o Vili & PO Norozpur Gurjar, Baghatpat Uttar Pradesh 250601 (Borrower & Owner of the property) Guarantor: 2. Mrs Suman Lata W/o Narender Singh R/o VPO Norozpur Gurjar, Baghatpat Uttar Pradesh 250601	All part and parcel of a residential house bearing MPC2 No 474/1, situated at Ward No. 4 Part of Khasra No. 469A, Bhoop Singh Colony, Mandi Tatir, Distt Baghatpat Uttar Pradesh 250609 in the name of Mr. Jitendra Kumar S/o Shri Sureshpal and measuring area 167.17 sq yards / mt. Boundaries: East: 59'-0" Adjoining Plot of Seller, West: 63'-0" Adjoining land of Rohtash, North: 29'-6" Adjoining Plot of others, South: 29'-6" adjoining rasta 12'-0" wide	19.06.2021	Rs. 1869001.88 as on 13.04.2021 with further interest and Other Charges w.e.f. 13.04.2021

 Date : 07.09.2021 Place: Baghatpat Chief Manager/Authorized Officer, Bank of Baroda

BCL ENTERPRISES LIMITED
 Regd. Off.: 510, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi-110001
 CIN:L26102DL1985PLC021467, Email Id: bclenterprisesltd@gmail.com
 Website: www.bclenterprisesltd.in, Tel No.:011-43080469
NOTICE
 Notice is hereby given that 36th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, the 30th day of September, 2021, at 03:00 PM at BG-223, Sanjay Gandhi Transport Nagar, GTKarnal Road, Delhi-110042 to transact the business mentioned in the Notice of AGM. The Notice of AGM has together with Annual Report been sent to all the members (dispatch completed on 08th September, 2021) whose names appear in the Register of the Members/Record of Depositories as on 03rd September, 2021 by e-mail only. The AGM shall be conducted after taking all the necessary precautions required in this COVID-19 pandemic situation.
 Notice is further given pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 the Company is pleased to provide to its members the facility to cast their vote by Electronic means on all resolutions set forth in notice. The Company has engaged the services of M/S Mas Services Limited to provide the e-voting facility to the shareholders.
 1. The Company is providing e-Voting facility to the Members of the Company to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the Notice of AGM.
 2. The e-Voting period commences on Monday, 27th September, 2021 at 09:00 A.M.
 3. The e-Voting period ends on Wednesday 29th September, 2021 at 05:00 P.M.
 4. Cut-off date: 22nd September, 2021.
 5. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as voting in the General Meeting.
 6. The persons who have acquired shares and become the members of the Company after the dispatch of Notice but before the cut-off date may obtain the login ID and password for availing the facility of e-Voting by following instructions given in the Notice of AGM.
 7. Members of the Company holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of e-Voting or voting in the General Meeting by way of Ballot Process.
 8. The e-Voting shall not be permitted beyond the aforesaid date and time.
 9. A member may participate in the General Meeting even after exercising his right to vote through e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.
 10. In case of any query or grievances connected with the voting by electronic means, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at the download section of the www.evotingnsdl.com or may contact:-
 a) Mr. Balmiki Singh, T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase - II, New Delhi - 110 020. Email: balmiki@masserv.com, Tel: +91 11 2638 7281 /82/83
 b) Mr. Mahendra Kumar Sharda, (Managing Director), BCL Enterprises Limited, 510, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi-110001 ; Email: bclenterprisesltd@gmail.com, Tel: 011-43080469.
 11. The Company is conducting the AGM physically, but in compliance with the above provisions and circulars, electronic copies of the Notice of the 36th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2020-21 has been sent to all the members of the Company whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants/Registrar & Share Transfer Agent (RTA).
 The Notice of AGM and the Annual Report for the Financial Year will also be available on the website of the Company at www.bclenterprisesltd.in and the stock exchange where the equity shares of the Company are listed i.e. (BSE Limited and MSEI) at www.bseindia.com and www.mseil.in respectively.
 12. Manner of registering/updating email addresses:
 a) Those Shareholders who are holding equity shares in physical mode who have not registered/updated their email addresses, PAN and Banking Details with the Company/RTA are requested to update above said information by writing to the company at www.bclenterprisesltd.in along with copy of signed request letter mentioning the name and address of shareholder, proof of Bank Details and self-attested copy of PAN/ any other identity and address proof.
 b) Those Shareholders, who are holding shares in dematerialized mode and have not registered/updated their email addresses and banking details with their Depository Participant(s), are requested to register/update their email addresses with the relevant Depository Participant(s).
 13. Manner of casting vote through e-voting: The Company will be providing remote e-voting facility to all its shareholders to cast their votes on the businesses as set forth in the Notice of the AGM. The login credentials for casting votes through remote e-voting shall be made available to the Shareholders through email.
 Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Thursday, 23rd September, 2021 to Thursday, 30th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM.
 For BCL Enterprises Limited
 Sd/-
Mahendra Kumar Sharda
 (Managing Director)
 DIN: 00053042
 Date: 07-09-2021
 Place: New Delhi
 Off. Address: 510, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi-110001

PHOENIX INTERNATIONAL LIMITED
 CIN: L74899DL1987PLC030092
 Regd. Office: 3rd Floor, Gopala Tower, 25 Rajendra Place, New Delhi-110008
 Tel : (91-11) 2574 7696, 2575 1934/35/36 Fax : (91-11) 2575 1937/38
 E-Mail: narendermakkar@yahoo.com, Website: www.phoenixindia.com
NOTICE OF 34th ANNUAL GENERAL MEETING
 Notice is hereby given that in furtherance to our notice published in the newspapers in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) Delhi Edition dated 02.09.2021 regarding the 34th Annual General Meeting of the Company ("AGM") of the Members of **Phoenix International Limited** to be held on **Wednesday 29.09.2021 at 04.00 PM** through two way Video conferencing (VC) facility / Other Audio Means (OAVM) ONLY to transact the businesses set out in Notice of the AGM, members of **Phoenix International Limited** are hereby informed that electronic copy of the Notice convening the AGM, procedure & instructions for e-voting (remote e-voting and e-voting at the AGM and the Annual Report for FY-21 have been sent on 06.09.2021 to those Members whose email ID are registered with the Company/ Depository Participants ("DP"). Members may download aforesaid documents from the website of the Company viz. www.phoenixindia.com and the stock exchanges viz. www.bseindia.com.
 The detailed procedure for attending AGM, voting (remote e-voting etc.) is set out in the notice of AGM, on the following lines:
 1. The Company is providing facility to its Members to exercise their right to vote on the business set forth in the Notice of AGM through remote e-voting. Procedure for e-voting and attending the AGM for members are provided in notice of AGM. Mas Services Limited has been engaged by the Company for providing VC/OAVM platform and e-voting facility.
 2. Members of the Company holding shares in physical or demat form, as the case may be, as on the **Cut-off date i.e. 22.09.2021** only, are entitled for e-voting and to attend the AGM.
 3. Remote e-voting facility shall commence at **9:00 AM (server time) on Sunday, 26.09.2021 till 5:00 PM (server time) Tuesday, 28.09.2021**. Thereafter, the remote e-voting facility will be disabled.
 4. Members who have exercised their right to vote through remote e-voting may attend the AGM, but shall not be allowed to cast their vote again thereafter. If a member casts votes by remote e-voting, then voting done through remote e-voting shall prevail.
 5. In case a person has become a Member of the Company after dispatch of the Notice but on or before the Cut-off date i.e. 22.09.2021 or has registered the e-mail address after dispatch of the Notice, such Member may obtain the User ID and Password in the manner outlined in the Notice of AGM.
 6. Persons who acquire and becomes shareholder of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 22.09.2021 can do remote e-voting by obtaining the login ID and password by sending an email to info@masserv.com by mentioning their Folio No./DP ID no. However, if such shareholder is already registered with the [RTA/DP] for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
 7. E-voting process pursuant to SEBI's circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/ CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020, have been provided in detail in the Notice of AGM.
 8. The Company has appointed Mr Anant Mishra, Chartered Accountant of M/s Anant & Co, I Chartered Accountants, 411, Angel Mega Mall, Kaushambi, Ghaziabad - 201010 as the Scrutinizer to scrutinize the voting process at the virtual meeting in a fair and transparent manner.
 For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section "Notes" in the Notice of the Annual General Meeting. In case of queries pertaining to e-voting procedure or voting at the virtual meeting shareholders may refer user manual for the shareholders published on the website of the Company www.phoenixindia.com or website of e-voting agency available at www.evotingindia.com Members may also contact Mr. Sharwan Mangla, General Manager, T-34, 2nd Floor, Block T Okhla Industrial Estate Phase 2 Road, New Delhi, Delhi 110020, e-mail: info@masserv.com Contact No.: +91 11 2638 7281 /82/83 in case of any queries related to e-voting facility or voting at virtual AGM.
 By Order of the Board
For PHOENIX INTERNATIONAL LIMITED
 Sd/-<

